Oracle Credit Limited

(CIN: L65910DL1991PLC043281)
Regd. Office: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016
E. mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in
Website: www.oraclecredit.co.in
Tel: 011-26167775



Date: February 05, 2021

Ref. No.: OCL/2020-21/277

To
Listing Operations
BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 539598

Sub: Newspaper publication of Notice of Board Meeting under Regulation 29 and 47 of Chapter IV of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 29 and 47 of Chapter IV of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith a copy of the Notice of Board Meeting to be held on February 11, 2021, published in Newspapers namely, Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on February 05, 2021.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully, For **Oracle Credit Limited**

Vineeta Gautam Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

FUNNY SOFTWARE LIMITED

CIN: L72300DL2007PLC165836

Read, Office: Office No 208, 2nd Floor, Plot

ABHINAV LEASING & FINANCE LIMITED (CIN: L65100DL1984PLC018748) Regd. Office: S-524,Ist Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi 110092 E-Mail: abhinavleasefinltd@gmail.com Website: www.abhinavleasefinltd.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on Thursday 11th February, 2021 inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020 along with other business if any.

The information contained in this notice available on the Company's website at www.abhinavleasefinltd.in and the website of Stock Exchange as www.bseindia.com.

For Abhinav Leasing & Finance Limited

Atul Kumar Agarwal Date: 04.02.2021 Place: Delhi



Read. Office: 601. Hernkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019 CIN: L74899DL1996PLC083073 E-mail: jbma.investors@jbmgroup.com Website: www.jbmgroup.com Ph. 011-26427104 -06; Fax: 011-26427100 COMPANY NOTICE

Pursuant to the Regulations 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 9' February, 2021 to consider, inter-alia, the un-audited financial results of the Company for the 3rd quarter and nine months ended on 31" December, 2020.

The details of said meeting are also available on the website of the Company www.jbmgroup.com and on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and

Prevention of Insider Trading" of the Company, the 'Trading Window' fo Directors / Officers / KMPs / Designated Persons of the Company has already been closed from 1st January, 2021 and will end 48 hours after the results are made available to the public on 09" February, 2021.

(Vivek Gupta) Date: 02.02.2021 Chief Financial Officer Place : New Delhi & Company Secretary

for JBM AUTO LIMITED

RAJDARSHAN INDUSTRIES LTD. Regd. Off.: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur-(Raj.) 31300 CIN: L14100RJ1980PLC002145, Tel: 0294-2427999 Web: www.raidarshanindustrieslimited.com

Email: info@rajdarshanindustrieslimited.com NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, February 13, 2021 to

Results of the Company for the guarter and period ended December 31, 2020. Further the trading window for dealing in the securities of Company shall remain closed till 48 hours of the date of declaration of the un-audited Financial Results of the Company for the quarter and period ended December 31, 2020.

consider and approve the Unaudited

Standalone and Consolidated Financial

By Order of the Board Place: Udaipur For Rajdarshan Industries Ltd. Date: February 03, 2021 Kalp Shri Vaya, Company Secretary

SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED (Formerly known as Sabrimala Leasing and

Holdings Limited) CIN: L74110DL1984PLC018467 Regd. Office: 205 Aggarwal Corporate Heights Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 Website: www.sabrimala.co.in Email: cs@sabrimala.co.in Ph: 011-47479723

ursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SERI It isting Obligation and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 6th Meeting (6/2020-21) of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 12th day if February, 2021 at 3:00 P.M. at the registered office if the Company situated at 205, Aggarwal Corporate eights, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi, 110034, inter-alia to consider and approve unaudited Standalone and consolidated Financial Results for the 3rd Quarter/ Nine Months Ended December 31, 2020 along with Limited Review Report and approve other items as stated in agenda. The said notice may be accessed on the Company's website at www.sabrimala.co.in and on the website of the relevant stock exchanges.

Further, pursuant to Regulation 4(1) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with the Company's Internal Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Tracking by Insiders, the company hereby affirms that the trading window for dealing in the securities of the Company is closed for the Designated Persons covered under the said code of the Company from 2nd January, 2021 till 48 hours of making the financial results available the public By order of the Board

For Sabrimala Industries India Limited Ms. Meenu Sharma Date: 04.02.2021 Company Secretary

MASTER TRUST LIMITED Regd. Office: Master Chambers. 3rd Floor, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 (Pb)

CIN: L65991PB1985PLC006414

Tel. No.: 0161-5043500 E-mail: secretarial@mastertrust.co.in Website: www.mastertrust.co.in

NOTICE

Place: New Delhi Date: 04.02.2021

Notice is hereby given that meeting of Board of Directors will be

held on Friday the 12th Day of February, 2021 to consider 8 approve the Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020.

By order of the Board For Master Trust Limited

Place : Ludhiana Company Secretary Date: 04.02.2021 & Compliance Officer

Paramount Communications Ltd. PARAMOUNT CIN: L74899DL1994PLC061295 Regd. Office: Paramount House, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 Ph.: +91-11-45618800-900, Fax: +91-11-25893719/20

E-mail: pcl@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com

NOTICE

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered office of the Company at C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 on Thursday, 11" February 2021 at 04:00 P.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 31" December, 2020. Arrangement has also been made for participation of Board Members

electronically through video-conferencing facility.

The information contained in this Notice is also available on the website of the company i.e. www.paramountcables.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

For Paramount Communications Ltd

(Rashi Goel) Compliance Officer & Company Secretary

PRIME INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Master Chambers, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 (Pb) CIN: L15490PB1992PLC012662 Tel. No.: 0161-5043500 E-mail: prime_indust@yahoo.com Website: www.primeindustrieslimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that meeting of Board of Directors will be held on Thursday the 11th Day of February, 2021 to consider & approve the Unaudited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020. By order of the Board

> For Prime Industries Limited (Rajinder Kumar Singhania) Managing Director

Place: Ludhiana Date: 04.02.2021

RIBA TEXTILES LIMITED

DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post

Office, New Delhi - 110019

CIN: L18101DL1989PLC034528

Tel.: +91-26213012 / 26236986

Fax.: +91-26465227

NOTICE

Pursuant to provision of regulations 29 read

with regulation 47 of the SEBI (Listing

SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED

Regd. Office: D2-11, Budh Vihar, Phase-1, New Delhi 110086 (DL) E-mail: sns.prop.ltd@gmail.com CIN: L65922DL1985PLC020853 Website: www.snsind.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on Thursday the 11th Day of February, 2021 to consider & approve the Unaudited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020.

By order of the Board For SNS Properties And Leasing Ltd

(Harwinder Kaur) Place: New Delhi Date: 04.02.2021 Director

SVAM SOFTWARE LIMITED (CIN: L65100DL1992PLC047327)

Regd. Office: 224, G/F Swayam Sewa, Co-Operative Housing Society Ltd., Jhilmil Delhi East Delhi DL 110032 E-Mail: svamsoftwareltd@gmail.com Website: www.svamsoftwareltd.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on Friday 12th February, 2021, inter alia. to consider and approve the Unaudited Financial Result of the Company for the quarter ended on 31st December, 2020 along with any other business if any.

The said notice may be accessed on the Company's website at Website as www.bseindia.com.

Sd/-

Company Secretary Place: Delhi M. No.: A46655

INTEGRAL COACH FACTORY CORRIGENDUM TO

TENDER NOTICE No. ICF/PCMM/EOT/01/2021

(Neha Dubey)

Existing	Amended as		
Tender No.0620008	Tender No. 06200082		
All other terms and condit	tions are remain unaltered.		

GREEN ICF! CLEAN ICF!

COSMO FERRITES LIMITED Read, Off.: P.O. Jabli, Distt. Solan, H.P. - 173209

CIN- L27106HP1985PLC006378, Tel: 01792-277231-32/35/36, Fax: 01792-277234 E-mail: investorservices@cosmoferrites.com, Website: www.cosmoferrites.com

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, February 10, 2021 at New Delhi inter-alia to consider and approve the Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2020.

For Cosmo Ferrites Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Aditya Sharma

Place: New Delhi Date: February 04, 2021

ORACLE CREDIT LIMITED



E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011- 26167775 NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, February 11, 2021 at the Registered Office of the Company at P-7 Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended December 31, 2020. This information may be accessed on the Company's website at www.oraclecredit.co.in and on the Stock Exchange's website at

www.bseindia.com For Oracle Credit Limited Place: New Delhi Vineeta Gautam

Date: 04.02.2021 (Company Secretary & Compliance Officer)





Place: New Delhi

Date: 05.02.2021

SI

No.

BSL Limited



STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020 **Particulars** Quarter Ended

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020 Unaudited Audited 8880 9960 31561 39004 1 Total Revenue from Operations 22978 172 168 2 Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, 98 (204)(87)Exceptional and/or Extraordinary items) 172 98 (204)168 (87)3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 146 140 (183)300 166 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 171 220 5 Total Comprehensive Income for the period 156 18 (170)[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 1029 6 Equity Share Capital 1029 1029 1029 1029 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown 6476 in the Balance Sheet of previous year 8 Earnings Per Share (of ₹ 10 /- each) not annualised. 1.42 1.62 Basic : (in ₹) 1.36 (1.78)2.92

Notes:

1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meeting held on 4th February, 2021. The Limited Review for the Results of guarter and nine month ended 31st December, 2020 as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, has been carried out by the Statutory Auditors.

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified

1.42

1.36

- under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. 3. The above is an extract of the detailed format of quarter and Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation
- 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of guarter & nine month ended 31st December, 2020 Financial Results are available on the websites of Stock Exchange(s) at www.nseindia.com/ www.bseindia.com and the Company's website at www.bslltd.com. By Order of the Board

for BSL LIMITED ARUN CHURIWAL

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

CIN: L24302RJ1970PLC002266

Registered Office: 26, Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhilwara - 311001 (Rajasthan) Tel.: (+91-1482) 249101-102, 245000 • Email: accounts@bslsuitings.com • Website: www.bslltd.com

Pursuant to Regulation29 (1) (a) read with Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Regulation and Disclosure Obligations) Regulation, 2015) it is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13th February, 2021 at 11:00 A.M. at the registered office of the company at 14 K.M. Stone, Chittorgarh Road, BiliyanKalan, Bhilwara-311001 to, inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Statements for the Quarter and Nine Month ended 31st December, 2020 along with other routine business.

A.K. SPINTEX LIMITED

Regd. Office: 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.)

Ph: 9887049006, 9929139002 • Email: akspintex@gmail.com • Website: www.akspintex.com

CIN: L17117RJ1994PLC008916

NOTICE FOR BOARD MEETING

Further, in terms of Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of the company, the Trading Window for transaction in securities of the company shall remain closed from 1st January 2021 to 15rd February, 2021 (both days inclusive) for insider for the purpose of announcement of aforesaid result. For A.K. SPINTEX LIMITED

Place: Bhilwara Ashish Kumar Bagrecha Date: 4th February, 2021 Company Secretary & Compliance Officer

FORM NO. 5 **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow 226007 (Areas of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION O.A. No. 250/2020

(Summons to Defendant under section 19(3), of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993) O. A. No. 250 of 2020

Punjab National BankApplicant

Shri AteekDefendant

1. Shri Ateek S/o Shri Rafeek Qureshi R/o House No. 113. Kassawan. Khuria. Distt. Bulandshahr

In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applican or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 12.07.2021 at 10.30 A.M. failing which the application shall Registrar be heard and decided in your absence. **Debts Recovery Tribunal, Lucknow**

GOVERNMENT OF UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER PMGSY JKRRDA 4TH FLOOR JKPCC COMPLEX PANAMA CHOWK JAMMU Phone No. 0191-2470284, Fax No. 0191-2479335

Invitation of Expression of Interest for Empanelment of DPR Consulting Agency EOI No. 01/CE/PMGSY/J of 2021-22 Dated: 30-01-2021

E-mail: cepmgsyjammu @gmail.com

Expression of Interest is invited from approved & eligible consulting agencies for prepara tion of DPRs including Road survey, Traffic survey with automatic traffic counter, soil investigation and vetting of DPRs from State Technical Agency (HOD Civil, GCET Jammu) for PMGSY Schemes in Districts of Jammu, Samba &Kathua. The Bidding Documents com prising of qualifying information, eligibility criteria and terms of reference of EOI and other details can be downloaded from https://www.pmgsytendersjk.gov.in/ as per schedule of dates given below:

Schedule of Dates

Date of publishing of Eol Document download/Sale start date 02-02-2021 from 5:00 PM to 13-02-2021 upto 4:00 PM 04-02-2021 at 11:30 AM in the office of Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) Bid Submission closing Date 13-02-2021 upto 04:00 PM Date and Time of Bid opening (Technical) 15-02-2021 at 11:30 AM

Bid processing cost :- Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) Non-refundable in the shape of demand draft in favour of Chief Engineer PMGSY Jammu, payable at Jammu Sd/- (Er. ManzoorHussain)

Chief Engineer PMGSY JKRRDA, Jammi

ansal API Building Lifestyles Since 1967 **Ansal Properties & Infrastructure Limited**

Regd. Office: 115. Ansal Bhawan, 16. Kasturba Gandhi Marg. New Delhi-110001 **Mobile:** 91-9871053419. **Tel.:** 011-23353550. 66302269/72 Website: www.ansalapi.com: Email: shareholderservice@ansalapi.com

Notice is hereby given that pursuant to the compliance of Regulations 29, 33 and 47 o SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

("Listing Regulations"), please be informed that a meeting of the Board of Directors of the Company shall be held on Thursday, the 11th February, 2021, to consider and approve, inter-alia, the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the 03rd quarter/nine months ended on the 31stDecember, 2020 of the Financial Year 2020-21 This is being subjected to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company. Further the Trading Window in respect of aforesaid meeting was closed from the

{Prohibition of Insider Trading} Regulations, 2015, as amended. This information is also available at the website of the Company i.e. www.ansalapi.com

and also at the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Date: 04.02.2021 Place: New Delhi

(Abdul Sami) General Manager (Corporate Affairs) & Company Secretary

M. No. FCS-7135 BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.com Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the

Quarter Ended 31st December, 2020 (Amount, in Lacs) Quarter ended Year ended

Audited 177.14 Total Income from Operations 62.41 Net Profit/(Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items) 8.59 59.90 83.41 Net Profit/(Loss) for the period before tax 8.59 after Exceptional and/or Extraordinary items 59.90 83.41 Net Profit/(Loss) for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary items 8.59 59.90 66.62 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive 8.59 59.90 66.62 Income (after tax)) Equity Share Capital 589.81 589.81 589.81 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of 1,282,25 997.85 997.85 the previous year) 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2020 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations)

NOTES:

record and approved by Board of Directors at their meeting held on February 04, 2021 Figures for the guarter ended 31st December, 2019 and year ended 31st March, 2020 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current guarter ended 31st December, 2020.

 As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable.

the Stock Exchanges for the Quarter Ended 31 December, 2020 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

> S. K. Murgai (Director) DIN: 00040348

यूनियन वैक 🕼 Union Bank 9=

Place: New Delhi

Branch: 5E/3, B.P. Neealm Railway Road, NIT Faridabad - 121001 POSSESSION NOTICE (Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Union Bank of India (E-Corporation Bank) under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest. Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under

section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated calling upon the borrower/guarantors on below mentioned date, to repay the amount mentioned in the notice, within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantors and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 02™ Day of February of the year 2021. The borrower/guarantors in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India (E-Corporation Bank) for an amount mentioned herein below beside

with future interest and other expenses, cost, charges etc against the under mentioned accounts. The Borrower attention is invited to provision of section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. **Outstanding Amount** Name of the Borrowers / Guarantors Description of Immovable Property

Date of Rs 43,66,211.63 Borrower: Property measuring 777 Sq Yards forming part of Demand Notice M/s K D Khera & Co Pvt. Ltd. Rupees Fourty Bunglow Plot no 3-B/16 situated at NIT 17.07.2020 3B-16 B.P., NIT Faridabad-121001 three lacs sixty six Faridabad-121001. Guarantors: thousand two hundred Mr. L N Khera, 2. Mr. C P Khera, Date of

WISEC GLOBAL LIMITED NH-II. 2ND Floor, C -Block Community Center, Naraina Vihar, New Delhi-110028

Pursuant to the provision of Clause 49 (I) (C) of the Listing Agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th February 2021, to inter-alia, consider, approve and take on record the un audited result for the guarter ended on 31 December 2020.

For Wisec Global Limited Rakesh Rampal Date: 03/02/2021 Place: New Delhi Whole Time Director

PUBLIC NOTICE

Hanuman Singh Gautam S/o Sh. Dilip Singh Gautam, House No. 128/522, Y-1, Kidwai Nagar Kanpur Do Hereby Declared That Original Documents of My House, Lease Deed Bearing No. 1772, Mus No 1773 Dated 01-12-1990 & Free Hold Deed No. 7438 & 7439, Dated 29-12-2000 & Other Documents have been Destroyed at Locker Of SBI Kaushalpuri Kanpur.

SATKAR FINLEASE LIMITED Regd. Office: 829, Laxmideep Building, 8th Floor, District Centre, Next To V3S Mall, Laxmi Nagar, Delhi 110092 CIN: L65910DL1996PLC075394 NOTICE

Notice is hereby given that Board Meeting of the Company will be held on Wednesday, 10th ebruary, 2021 at the Registered Office of the company, pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2020. copy of the said notice shall also be available at

For Satkar Finlease Limited Roop Singh Place : Delhi Date: 04.02.2021 Whole Time Director

the company's website www.satkarfinlease.in and

on stock Exchange website www.bseindia.com

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 5140-41/34, F/F Chaudhary Market GaliPetiWali, RuiMandi, Sadar Bazar, North Delhi- 110006 (E) : nirajispatindustries@gmail.com,

(W): www.nirajispat.in CIN: L27106DL1985PLC021811, Phone: 011-23551821. NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12*February, 2021 at 01:00 P.Mat the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2020 and any other businesses as may be considered necessary. By order of the Board For NirajIspat Industries Limited

(CHAITANYA CHAUDHRY) Date: 04.02.2021

New Delhi DIN: 06813394 KD- 46, Kavi Nagar, Ghaziabad- 201002,

Devika Tower 6, Nehru Place New Delhi -110019 Corp.Office: 610/611, Nirmal Galaxy Avior, L.B.S Road, Near Johnson & Johnson, Mulund(W), Mumbai - 400080

Contact: 011-4100327,

regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be heldon Friday, 12th day of February, 2021at 4:00 PM to inter alia, to consider and approve the

The notice is also available on Company's website www.integratelesoftware.com and website of the Stock Exchange

For Integra Telecommunication and Software Limited

Jeet Rajen Shah Date: 04.02.2021 Director

Regd. Office: C-20, SMA, Co-Operative Industrial Estate, G T Karnal Road, Delhi-110033 Corp. off- Plot No.3, Sector -11, IMT Manesar

29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12th, 2021 at 03:00 p.m. at the Corporate Office of the Company at **Plot No-**03, Sector-11, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050 to inter alia, consider, approve and take on record the Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and Nine Months ended December 31st, 2020 and other

"Equity Shareholders of the company are invited to send their questions/agendas, if any. to be discussed with the board in their ensuing meeting in word file kraleasing1990@gmail.com along with your name, address, Folio No./DP ID and Client ID along with number of shares held". Notice of Board meeting is available on Notice

> By order of the Board For KRA Leasing Limited

Place: Gurugram Date: 04.02.2020

Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of other business if any.

Place: Delhi

New Delhi

No. A-1 Madhuban Tower, Veer Savarkar Block, Shakarpur Delhi - 110092 Email: funny_soft@yahoo.com NOTICE Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI

isting Obligations and Disclosures Requirement) egulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors will be held on Wednesday, 10th February, 2021 at the egistered Office of the company to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 31" December, 2020. A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.funnysoftwarelimited.com and on Stock Exchange Website at www.bseindia.com

For FUNNY SOFTWARE LIMITED RAM NARESH Date: 04.02.2021 WHOLE TIME DIRECTOR

Leading Leasing Finance And Investment Company Limited Regd. Office: 611, Sixth Floor, Pragati Tower 26 Rajendra Place Opp. Metro Station New Delhi 110008 (E) leadingleashing@gmail.com, (W)www.lifiltd.com CIN: L65910DL1983PLC016712, Phone: 011-25876635

ursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Eisting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board o Directors of the Company will be held on riday,12°February, 2021 at 03:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31" December, 2020 and any other businesses may be considered necessary. By order of the Board

For Leading Leasing Finance and Investment Company Limited Place: New Delhi (Ami Jinen Shah) Date: 04.02.2021 Whole-Time Director DIN: 06792048 Giriraj, 2nd Floor, Khotochiwadi, V.P. Rd., Mumbai, 400004, Maharashtra

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED Registered Office: Statesman House 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001 CIN- L74899DL1993PLC053034 NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 29

read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 13" February, 2021 at 11:00 A.M. inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended on 31" December, 2020. The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.InternationalsecuritiesItd.com and the website of the Stock Exchange Metropolitan Stock Exchange of India Ltd - www.msei.in.

For INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Rajeev Kumar Gupta

Whole Time Director

DIN-00039399

Place: New Delhi Date: 04.02.2021

Regd. Office: Office No. JF-01, Property No. F-40, Jagat Puri, Delhi - 110040 mail ld : angelsenterpriseslimited@yahoo.com CIN: L51909DL1990PLC042445 lotice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday, 10" February, 2021 at the Registered Office of the company to consider and

INCEPTUM ENTERPRISES LIMITED

to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. A copy of the said notice shall also available at the Company's website at www.angelsenter.com and on stock Exchange website at www.bseindia.com

approve the Unaudited Financial Results for the

Quarter ended on 31st December, 2020, pursuant

For Inceptum Enterprises Limited VINAYA PRAKASH Date: 04.02.2021 DIRECTOR Place : New Delhi

PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED CIN: L65993DL1992PLC048483 Regd. Office: K H- 810, 2ND Floor, Mahipal Pur Extension (Near Maruti Work Shop), New Delhi- 110037 Website: www.porschecapital.com

Email: porche_capital@yahoo.in

NOTICE lotice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a neeting of the Board of Directors of the Compan vill be held on Wednesday, 10th February, 2021 to consider and take on record the Unaudited inancial Results for the guarter ended 31 December, 2020 among other things. A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.porschecapital.com and on Stock

Exchange Website at www.msei.in For PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED Place : Delhi RAJAN TIRKEY Date: 04.02.2021 DIRECTOR

ETT LIMITED

Regd. Office: 17, Hemkunt Colony. New Delhi - 110 048 T & F: +91 11 4656 7575 Email: secretarial@ettgroup.in

CIN: L22122DL1993PLC123728

Web: www.ettgroup.in NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, February 11, 2021 at 4:00 P.M. at UB, Express Trade Towers 3, Plot no. 79, Sector 34, Gurugram, Haryana - 122 001 interalia, to consider and take on record the unaudited financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2020.

For ETT Limited Date: 04.02.2021 Puniti Sharma Place: New Delhi Compliance Officer TRIDEV INFRAESTATES LIMITED

(Formerly Known as Ashutosh Paper Mills Limited)

(CIN: L65100DL1988PLC033812) Regd. Office: 269, G/F, Triveni Apartment, Swayam Sewa CGHS Limited, Jhilmil Colony, Delhi -110095 E-Mail: ashutoshpapermills@gmail.com Website: www.tridevinfraestates.in NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing

the Board of Directors will be held on Friday 12th February, 2021 inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Result for the Quarter ended on 31st December, 2020 along with The information contained in this notice

For Tridev Infraestates Limited

obligations and disclosure requirements regulations 2015, Notice is hereby given, that Meeting of the Board of Directors of the Company is Schedule to be held on Friday, 12" February, 2021 at 04.30 p.m. at Kishore House Assandh Road, Panipat-132103, Haryana, inte

alia, to consider, approve and take on record the

Un-audited Financial results for the Quarter and nine months ended on 31[™] December 2020. Further, the Trading Window for in dealing securities of the Company is already closed for all the designated person of the Company and for their immediate relatives under SEBI (Prohibition of insider Trading) Regulations, 2015, including all amendments thereof, from 01" January 2021 and it will open after the end of 48 hours after the results are made public, for

December 2020. The said notice is also available on the Company's Website www.ribatextiles.com and the website of Stock Exchange- BSE Ltd. For Riba Textiles Limited

the Quarter and nine months ended on 31"

NOTICE

www.svamsoftwareltd.in and may also be accessed at Stock Exchange 3 Pre Bid Meeting For Svam Software Limited

Date: 04.02.2021

Manisha Agarwal (Managing Director)

No. CEJ/PMGSY/17248-267 Dated:-30/01/2021

Corporate Identity Number: L45101DL1967PLC004759

01st January, 2021 and shall remain closed till the completion of 48 hours after the declaration of aforesaid quarterly Un-Audited Financial Results, in terms of SEBI

Particulars 31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020 Unaudited Unaudited

(1) Basic (2) Diluted

 No Leasing Business has been undertaken during the guarter. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken or

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with

For and on behalf of the Board of Directors

1.02

1.02

1.41

Dated: 04th February, 2021

eleven and paisa sixty Legal Heirs of late Sri Harish Khera: 3. Mrs. Neelam Khera, 4. Ruchika Khera. Legal heirs of three only) plus Possession late Sri Jagdish Khera; 5. Mr. Mukesh Khera, 6. Mrs. Saroj Khera, 7. Mr. Deepak Khera, 8. Mrs. interest thereon. Sonia Grover, 9. Ms. Sonali Joshi, Common Address for all: 3A-148, NIT Faridabad-121001

02.02.2021 Authorised Officer: Union Bank of India

(Director)

financialexp.epap.in

Place: Kolkata (W.B.)

Dated: 4th February, 2021

www.nseindia.com. Further, as per the "Code of Conduct for

(Vikas Gupta)

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 or

(₹ in Lacs) Year Ended Nine Months Ended

Diluted : (in ₹) (1.78)

2.92

1.62

DIN: 00001718

Date: 05/02/2021 Place: Faridabad

Date and Time of Bid opening (Financial) To be notified after technical evaluation

INTEGRA TELECOMMUNICATION AND SOFTWARE LIMITED Regd. Office.: Flat No. 901B,

E-mail: info@integratelesoftware.com Website: www.integratelesoftware.com CIN: L74899DL1985PLC020286 NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with

Standalone Un-Audited Financial Results of the Company for the guarterended 31st December, 2020.

www.bseindia.com.

KRA LEASING LIMITED CIN: L65993DL1990PLC039637 E: kraleasing1990@gmail.com; W: www.kraleasing.com,

Gurugram, Haryana- 122050; Ph. No.: 0124-4746817 Notice is hereby given pursuant to Regulation

of Board meeting is available on Company's website www.kraleasing.com and stock

exchange website viz www.msei.in.

businesses as per agenda.

Ridhima Gupta Company Secretary cum compliance Officer Memb. No.61965

> available on the Company's website at www.tridevinfraestates.in and may also be accessed at Stock Exchange website as www.bseindia.com.

Date: 04.02.2021 Atul Kumar Agarwal

D-1. Umesh Rana S/o. Sh. Sultan Singh H.No. 6570, Sector-C Pkt-6 &7 Vasant Kunj, New Delhi -11007 Whereas the above named applicant, has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not to serve you in ordinary way make appearance in this Tribunal on 09:02:2021 at 10:304.M. Take notice that in case of your failure to appear on the above up through Video Conferencing and for that purpose: (()All the Advocate/ Litigants shall download the Cisco Webex

application/ software; (ii) Meeting ID and Password for the next date of hearing gua cases to be taken by Registran/Recover-Officer-l'and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date of DRT Official Portal i.e. drt.gov.in under the Public Notice Head. (iii) In any exigency qua that, the Advocate/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 21st

By Order of this Tribum.

Assistant Registrar, DRT-III, New Dell

#ि फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड CIN: L15133UR1990PLC023970 पंजी. कार्या.: लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया. पी. ओ

रेशम मजरी, हरिद्वार शेख, देहराहून (उत्तराखण्ड) कोन : 0135-2499234, फैक्स : 0135-2499235 वेषसाइट : www.flexfoodsltd.com इमेल : secretarial@uflexItd.com

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि फ्लैक्स फड़स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिये कम्पनी यह जानकारी कंपनी की येबसाइट

पलैक्स फूड्स लिमिटेड के लिये राजेश धीर कम्पनी सचिव

ए-64, ऑर्डनैन्स अपार्टमेन्ट्स, स्थान : नई दिल्ली ब्लॉक-एच, विकासपुरी, तिथि : 04.02.2021 नई दिल्ली-110018

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL - III. DELHI 4TH FLOOR, JEEWAN TARA BUILDING. PARLWMENT STREET. NEW DELHI-110001

Notice under Section 19/4) of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial instrutions Act. 19/3 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 19/3 in ICICT BANK LTD. AND. Applicant Vs. KALPTARU HOUSING PVT. LTD. & ORS. .. Defendents

Kalpitaru Housing Pvt. Ltd. E-69, Kalkaji, New Delhi Also at Kalplary Housing Pvt. Ltd. B-4, 6th Floor, Sector-132. Abtech Malro Tower, Expresway, Noida -201301

2 Saha Infratech Pvt. Ltd. Plot No. B.M., 6th Floor, Sector-132, spressway, Noida -201301

3 Aniel Kumar Saha S/b. Amulya Kumar Saha G-22, Sector-17, Gautam Nagar, Noida -201301

Whereas the above named applicant has instituted a case gainst you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not to serve you in ordinary way, herefore, this notice is given by advertisement directing you to take appearance in this Tribunal on 10.02 2021 at 10.304 M. also notice that in case of your failure to appear on the above restricted in your absence. decided in your absence.

Due to ongoing Pendemic situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose. [IIAI the Advocate* Litigants shall download the Cisco Webex application/software, (ii) Meeting ID and Password for the next date of hearing qua cases to be taken by Registrat/Recovery Officer-litand Recovery Officer-litand Recovery Officer-litand Recovery Officer-litand Recovery Officer literature of the proof to the next date of DRT Official Portal i.e. drt.gov.in under the Public Notice Head. (iii) In any exigency gus that, the Advocate Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 23748469

ETT LIMITED CIN: L22122DL1993PLC123728

Read. Office: 17, Hemkunt Colony, New Delhi - 110 048 T & F: +91 11 4656 7575 Email: secretarial@ettgroup.in Web: www.ettgroup.in

unaudited financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2020.

Date: 04.02.2021 Place: New Delhi

MAAN नई दिल्ली-110002 CIN No.: L30007DL2003PLC214485 फोन: 40081800. ईमेलः info@maanaluminium.in वेबसाईटः www.maanaluminium.com

स्टॉक एक्सचैंज(जों) के साथ सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एक बैठक शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को 4/5, 1ला तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में 12.30 अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिस.. 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिए जाएंगे तथा एजेण्डा

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी की प्रतिभूतियों में इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार सभी निदेशकों/ अधिकारियों/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विण्डो 01 जनवरी, 2021 से क्यू के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद

मान एल्युमिनियम लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली अनु अग्रवाल तिथि: 4.2.2021

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana NEXT DATE: 08-03-2021 CNR NO: PBLD03-048004-2018

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Munish Kumar

Notice To: munish Kumar S/o Not Known

K - 136 Gali No 3, K-block , Gautam Vihar Delhi- 110053 whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused// accused persons can't be served in the ordinary way of service. hence proclamation under 82 of code of procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 68-03-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and

determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in ?trs=district_notice&district=ludhiana apoorvaleasing@gmail.com पर आमंत्रित

केआरए लिजिंग लिमिटेड CIN: L65993DL1990PLC039637 E: kraleasing1990@gmail.com; W: www.kraleasing.com पंजीकृत कार्यालय: सी-20, एसएमए

को-आपरेटिव इन्डस्ट्रियल इस्टेट, जी टी करनाल रोड, दिल्ली-110033 कारपोरेट कार्यालयः प्लॉट न० 3. सेक्टर-11 आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा -122050 दुरभाष: 0124-4746817

सेबी के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त कम्पनी के तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत एवं रिकार्ड में ग्रहण करने एवं अन्य व्यवसाय कार्यसूची हेतु कम्पनी के

निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2021 को सायं 03:00 बजे कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय प्लॉट न० 03, सेक्टर-11, आईएमटी |मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा-122050 में "कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सूनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने प्रश्न/कार्यसूची, यदि कोई हों, वर्ड फाइल मे ंअपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी

मंडल की बैठक की सचना कम्पनी की वेवसाइट www.kraleasing.com एवं स्टॉक एक्सचेन्ज की वेवसाइट www.msei.in पर भी उपलब्ध है।

के साथ kraleasing1990@gmail.com पर

बोर्ड के आदेशानसार कृते केआरए लिजिंग लिमिटेड रिधिमा गुप्ता

कम्पनी सचिव कम अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या:61965 स्थान: गुरूग्राम तिथि: 04.02.2020

अपुरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट कम्पनी लिमिटेड CIN No. L74899DL1983PLC016713 E: apoorvaleasing@gmail.com; W: www.apoorvaleasingfinance.com पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, 13/331, गीता कालोनी, दिल्ली-110031

दुरभाष: 011-022446748 सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कतायें) विनियमन 2015, के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य व्यवसायिक कार्यसूची तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एव रिकार्ड में ग्रहण करने हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को दोपहर 02:00 बजे कम्पनी के कारपोरेट

व्यावसायिक मदों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.panindiacorp.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों जहां कम्पनी के कार्यालय में आयोजित की जायेगी। सूचीबद्ध हैं, "कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारक मंडल की सुनिश्चित बैठक में चर्चा होने वाले अपने प्रश्न/कार्यसूची, यदि www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए कोई हों, वर्ड फाइल में अपने नाम, पते, फोलियो न०/डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी के साथ शेयर स्थानः नर्ड दिल्ली धारित संख्या के साधा तिथि: 4.2.2021

27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

CIN: L72200DL1984PLC017510

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा)

विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा लागु होने वाले

अन्य विनियमनों के साथ पठित विनियमन 29 के

प्रावधानों के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जात

है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार

10 फरवरी, 2021 को 2.30 बजे अप. में कम्पनी के

पंजी. कार्या.: 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, 27,

बाराखम्बा रोड. नई दिल्ली-110001 में आयोजित की

जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2020

को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित

वित्तीय परिणामों तथा एजेण्डा में वर्णित किसी अन्य

जेआईटीएफ इन्फ्राल्जिस्टिक्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : ए-1, यूपीएसआईडीसी

इंड. एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां,

जिला मथुरा – 281403

सीआईएन : L60231UP2008PLC069245

रतदद्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और

प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के

वेनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती

है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक

बैठक गुरूवार, 11 फरवरी, 2021 को जिंदल

आईटीएफ केंद्र. 28. शिवाजी मार्ग. नईी

दिल्ली—110015., में आयोजित की जाएगी,

जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसंबर, 2020

को समाप्त तिसरी तिमाही हेतु कंपनी के लिए

अ-लेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड)

वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए

सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियमावली

2015 के तहत अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के

लिए आचार संहिता के अनुसरण में, व्यापार

खिडकी, उपरोक्त वित्तीय परिणामों के प्रकटन

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट

www.jindalinfralogistics.com पर तथा

स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स नामतः

www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर

भी देखी जा सकती है, जहां कम्पनी के शेयर

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।। दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

वैकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की

वसली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ

पठित ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

डी–1 श्रीमती सुनीता कृमारी पत्नी श्री गणेश

कुमार, निवासीः 351, गली नीम वाली

रोशनआरा रोड, दिल्ली-110007, और: 56,

प्रेमनगर, शक्ति नगर, दिल्ली-110007, और:

यए-64ए, जवाहर नगर कमला नगर,

डी-2 श्री सुमित राठौर पुत्र सुरेश कुमार,

निवासीः २३४, ई-ब्लॉक, कृष्णा विहार, सुल्तान

तबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध

एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण

को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि

आपको साधारण रूप से नोटिस दिया जाना संभव

नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस नोटिस के

माध्यम से आपको दिनांक 10-03-2021 को पूर्वाह

10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस

न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की

सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिधति में किया

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों

को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य

(ii) 'रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-।/और

रिकवरी ऑफिसर-।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली

सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए

आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी।

पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात

(iii) किसी भी जानकारी हेत्, एडवोकेंट्स/

लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 23748469.

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के

तहत 11 जनवरी, 2021 को दिया गया।

सभी अधिवक्ता/पात्रगण सिस्को वेबेक्स

पुरी, एफ ब्लॉक, दिल्ली-110086

होने का निर्देश दिया जाता है।

के लिए लिया जाएगा:-

"drt.gov.in"

पर संपर्क कर सकते हैं।

ओ.ए सं. 562 / 2019 के मामले में

पंजाब नैशनल बैंक

सुनीता कुमार एवं अन्य

दिल्ली-110007 ।

हस्ता/-

आवेदक

आलोक कुमार

कम्पनी सचिव

एसीएस : 19819

से 48 घंटे तक के लिए बंद रहेगी।

मुचीबद्ध हैं।

तिथि : 03–02–2021

विजय पाल शुक्ला

प्रबंध निदेशक

मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.apoorvaleasingfinance.com

बोर्ड के आदेशानुसार कृते अपूरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट कम्पनी लिमिटेड

पंकज मिश्रा कम्पनी सचिव एवं स्थान: नौयडा अनुपालन अधिकारी तिथि: 04 फरवरी, 2021

(पूर्व का आशुतोष पेपर मिल्स लिमिटेड) (सीआईएन : L65100DL1988PLC033812 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 269, भूतल, त्रिदेव अपार्टमेंट, स्वयं सेवा सीजीएचएस लिमिटेड, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली-110095 ई-मेल : ashutoshpapermills@gmail.com वेबसाइट : www.tridevinfraestates.in

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही हेत् अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों एवं अन्य प्रकार्य, यदि कोई हो, पर विचार तथा अनुमोदन करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी।

एवं ग्राहक आईडी के साथ शेयर धारित संख्या इस स्चना में निहित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.tridevinfraestates.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com से एक्सेस की जा सकती है।

कृते त्रिदेव इंफ्राएस्टेट्स लिमिटेड

तिथि: 04.02.2021 अतुल कुमार अग्रवाल स्थान : दिल्ली



Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, February 12, 2021, inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

In view of the same in terms of the Company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders', Trading Window for trading in the shares of the Company has already been closed w.e.f. December 31, 2020 and shall remain closed till February 14, 2021.

This Notice is available on BSE Limited website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited website (www.nseindia.com) and also on the Company's website (www.pcjeweller.com) under the Investors section

For PC Jeweller Limited (Vijay Panwar) Company Secretary

Place: Delhi Date: 04/02/2021

ओएनजीसी 🕍 ONGC

एचपीएचटी एसेट, काकीनाडा (एच.पी.)

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

एचपीएचटी एसेट- संयुक्त उपक्रम (जेवी) जिसमें ओएनजीसी तथा जीएसपीसी शामिल है जिसका पी. मल्लावरम में ऑनशॉर गैस टर्मिनल है, के द्वारा प्रख्यात् सेवा प्रदाताओं से 18 माह की अवधि के लिये पीएनजीआरबी विनियमनों के अनुसार वांछित हाइड्रोकार्बन डेब प्वाइन्ट (एचसीडीपी) प्राप्त करने के लिये सैल्स गैस के प्रॉसेसिंग के लिये प्रचालन एवं रखरखाव के साथ चिलर युनिट के हायरिंग के लिये 'पर्व-योग्य होने'' के लिये पार्टियों को आमंत्रित किया जाता है।

कार्य के वहत्त क्षेत्र. प्रत्याशित डेलिवरेवल्स, दस्तावेजों को जमा करने की तिथि एवं समय तथा पीक्यूसी डाउनलोड करने के लिये: ओएनजीसी (link:https://tenders.ongc.co.in) देखें। अनुबंध के निष्पादन का स्थानः ओजीटी, पी. मल्लावरम गाँव, तल्लेरेवु मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश, भारत-533463

जीएम (पी)-ओजीटी, ओएनजीसी, एचपीएचटी एसेट

हर एक काम देश के नाम

मिंडा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1992PLCO50333



पंजी. कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052, Website: www.unominda.com

E-mail: investor@mindagroup.com Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 4 फरवरी 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये रु. 2/- प्रति, पूर्णतः प्रदत्त की सम मुल्य की इक्विटी शेयरों पर रु. 0.35 प्रति शेयर अर्थात 17.50% के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।

उपरोक्त बैठक में घोषित अंतरिम लाभांश प्राप्त करने के लिये अधिकृत पात्र शेयरधारकों को सुनिश्चित करने के लिये मंगलवार, 16 फरवरी, 2021 को ''अभिलिखित तिथि'' के रूप में निर्धारित किया है।

मिण्डा इंडस्टीज लि. के बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से तरुण कुमार श्रीवास्तव स्थानः दिल्ली

तिथि: 4 फरवरी, 2021 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank 8 --- D

शाखाः 5 ई/3, बी.पी. नीलम रेलवे रोड एनआईटी, फरीदाबाद- 121001 कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत युनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-कॉर्पोरेशन बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 फरवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का

का व्यवसाय यहाँ नीचे वर्णित राशि के अतिरिक्त नीचे खाताओं के अंतर्गत वर्णित आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये यनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-कॉर्पोरेशन बैंक) के चार्ज के अधीन होगा।

की जाती है। ऋणधारक /गारन्टरों का नाम अचल सम्पत्ति का विवरण बकाया राशि मांग सूचना ऋणधारकः मै. केडी खेरा एंड क. प्रा.लि. 3बी–16बी.पी. एनआईटी फरीदाबाद–121001 एनआईटी फरीदाबाद-121001 रु. 4366211.63 (रुपये 17.7.2020 गारन्टर्सः 1. श्री एल एन खेरा. 2. श्री सी.पी. खेरा स्व. श्री हरीश खेरा के काननी उत्तराधिकारीः में स्थित बंगला प्लॉट नं. 3– तैंतालिस लाख छियासठ हजार 3. श्रीमती नीलम खेरा, 4. रुचिका खेरा, स्व. जगदीश खेरा के कानूनी उत्तराधिकारी: 5. श्री बी/16 के भाग की सम्पत्ति माप दो सौ ग्यारह एवं पैसे तिडेसठ तिथि मुकेश खेरा, 6. श्रीमती सरोज खेरा, 7. श्री दीपक खेरा, 8. श्रीमती सोनिया ग्रोवर 9. सुश्री 377 वर्ग यार्ड्स मात्र) तथा उस पर ब्याज सोनाली जोशी, सभी का सामूहिक पताः ८ए, 148, एनआईटी, फरीदाबाद-121001

महान फूड्स लिमिटेड पेन इंडिया कांपरिशन लिमिटेड पंजी. कार्या: 711. 7वाँ तल. नई दिल्ली हाउस.

CIN: L15419HP1987PLC007356 पंजी. कार्यालयः एम-19, 1ला तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048

टेली.: 011-43107200, फैक्स: 011-43107250 ईमेलः info@mahaanfoods.com वेबसाईटः www.mahaanfoods.com

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के विनियमन 9 के अनुसार इन्सायडर ट्रेडिंग रोकने के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग विण्डो जो पहले से ही बंद है, उपरोक्त परिणामों की घोषणा की तिथि के बाद 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.mahaanfoods.com पर भी

बोर्ड के आदेश से महान फूड्स लिमिटेड के लिये

आयुषी विजय

Preeti Kataria

Company Secretary

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 4.2.2021

कम्पनी सचिव-सह-अनुपालन अधिकारी

ORACLE CREDIT LIMITED Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 CIN: L65910DL1991PLC043281 E-mail: oracle_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011- 26167775 NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, February 11, 2021 at the Registered Office of the Company at P-7 Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020. This information may be accessed on the Company's website at

www.oraclecredit.co.in and on the Stock Exchange's website at www.bseindia.com For Oracle Credit Limited Place: New Delhi Vineeta Gautam

Date: 04.02.2021

(Company Secretary & Compliance Officer)

AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

Regd. Office: W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi-110017 W: www.aayushfoods.com E-mail: aayushfoodherbs@gmail.com CIN: L01122DL1984PLC018307 Tel.: 011-41009092, 46095455

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 12th February, 2021 at the Registered Office of the Company at W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi- 110017 to consider, interalia Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2020 and other business, if any, with permission of the Board.

This intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) where the company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company (www.aayushfoods.com). For Aayush Food and Herbs Limited

Place: New Delhi Date: 04.02.2021

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.com Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the

SI. No.	Particulars	Quart	Year ended		
		31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
1.	Total Income from Operations	25.72	62.41	177.14	
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax	25575010050 UNISHT	7004700	100000000000000000000000000000000000000	
	(before Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	83.41	
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	83.41	
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax	0.55	03.30	03.41	
77	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	66.62	
*	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period				
	(after tax) and other Comprehensive				
100	Income (after tax))	8.59	59.90	66.62	
6.	Equity Share Capital	589.81	589.81	589.81	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	007.05	4 000 05	007.05	
	as shown in the Audited Balance Sheet of	997.85	1,282.25	997.85	
	the previous year)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations)				
	(1) Basic	0.15	1.02	1.41	

(2) Diluted NOTES:

No Leasing Business has been undertaken during the guarter.

2) The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record and approved by Board of Directors at their meeting held on February 04, 2021. Figures for the quarter ended 31st December, 2019 and year ended 31st March, 2020 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the

current quarter ended 31st December, 2020. As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act,

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the Quarter Ended 31 December, 2020 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

For and on behalf of the Board of Directors

0.15

Place: New Delhi Dated: 04th February, 2021

S. K. Murgai (Director) DIN: 00040348

1.02

1.41

शाकुम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड CIN:L21012UP1986PLC007671

पंजी. कार्यालयः 4.5 कि.मी., भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251001 वेबसाईट:https://shakumbhripulp.com

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 वं अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी 2021 को 1.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलाव 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनमोदन क उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

इस उद्देश्य से भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुसार इन्सायड ट्रेडिंग की रोक थाम के लिये आचार संहिता के अंतर्गत शामिल निदेशक/अधिकारी/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों/प्रवर्तकों व लिये ट्रेडिंग विण्डो पहले से ही बंद है तथा उपरोक्त बोर्ड की बैठक की पूर्णता के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे। इस सूचना का विस्तृत विवरण कम्पनी की वेबसाईट www.shakumbhripalp.com तथा स्टॉक एक्सचैंज क वेबसाईट www.msei.in पर भी उपलब्ध होंगे।

शाकुम्भरी पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के लिं

कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिका

पैरामाउन्ट कम्युनिकेशन्स लि CIN: L74899DL1994PLC061295 पंजी. कार्यालयः पैरामाउन्ट हाउस, सी-125, नारायण

स्थानः मुजफ्फरनगर

तिथि: 03.02.2021

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 05.02.2021

औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028 दूरभाष : +91-11-45618800-900, फैक्स : +91-11-25893719/20 ई-मेल : pcl@paramountcables.com, वेबसाइट : www.paramountcables.com

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय सी-125, नारायणा, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028 में बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021 को 4.00 अप. मे

तिमाही के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। विडियो-कान्फ्रेंसिंग सुविधा द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से बोर्ड के सदस्यों की भागीदारी की भी व्यवस्था की गई है। यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.paramountcables.com तथा साथ

आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त

स्टॉक एक्सचेंज जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड र्क वेबसाईट (www.nseindia.com) पर उपलब्ध सूचना में भी शामिल है।

पैरामाउन्ट कम्युनिकेशन्स लि. के लिए (राशि गोयल

अनुपालन अधिकारी एवं कम्पनी सचिव

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड सीआईएन : L33200UP1993PLC015474 पंजीकृत कार्यालय : 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर-203408 मुख्य कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070

दूरभाष : 011-40322100, ई-मेल : cs_cfhl@jindalgroup.com; वेबसाइट : www.consofinvest.com सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार एतद्द्वार सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 के कम्पनी के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31.12.2020 के

समाप्त तिमाही तथा नौ माही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन तथा ''प्रवर्त्तक

एवं प्रवर्त्तक समह'' श्रेणी से ''सार्वजनिक'' श्रेणी में श्रीमती आकृति अंकित अगरवाल तथा मै. आकृति

ट्रस्ट के पुनर्वर्गीकरण के लिये पोस्टल बैलॅट सूचना के अनुमोदन पर विचार किये जाऐंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय. भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम. 2013 तथा कोविड-19 द्वार उत्पन्न चनौती के कारण उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (''एमसीए सर्क्यलर्स'') तथा लाग होने वार् अन्य कानूनों एंव विनियमनों के अनुपालन में कम्पनी द्वारा साधारण तथा विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर ''स्पष्टीकरण'' के संदर्भ में साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 एव साधारण सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 साधारण सर्क्युलर नं. 39/2020 तिथि 3 दिसम्बर, २०२० तथा सेबी सर्क्यलर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी २/सीआईआर/पी/२०२१/११ तिष् 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (इस समय में लागू उसके किर्स सांविधिक संशोधनों, सुधारों अथवा पुनरीक्षणों सहित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 वे प्रावधानों के अनपालन में कम्पनी पोस्टल बैलॅट (''पोस्टल बैलॅट'') तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''ई-वोटिंग'') द्वारा कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के शेयरधारकों र्क स्वीकृति प्राप्त कर रही है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौती के कारण डाक अथवा कृरियर र पोस्टल बैलॅट सुचना, पोस्टल बैलॅट प्रपत्र/स्व-पता लिखित लिफाफे आदि के प्रेषण में कठिनाई वे कारण कम्पनी नियत समय पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में यह पोस्टल बैलॅट सूचना केवल उन सदस्यों कं हीं प्रेषित करेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट के पास पंजीकृत है। यह कम्पर्न लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध

कराएगी। सदस्यगण पोस्टल बैलॅट सुचना में प्रस्तावित प्रस्तावों के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग द्वार मतदान कर सकते हैं। वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश सूचना में उपलब्ध होगी। कम्पनी के पोस्टल बैलॅट सूचना की ई-कॉपी कम्पनी की वेबसाईट www.consofinvest.com तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी। यदि आपका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकत नहीं है तो कपया नीचे वर्णित

रूप में उसके पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें (कृपया 11.2.2021 से पूर्व उसे अपडेट कराएं

भौतिक धारिता फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एंव बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधा कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराते हुए ईमेल पते वे पंजीकरण के लिये delhi@linkintime.co.in पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथ अंतरण एजेन्ट्स, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें।) कृपया, यदि पहले से वह पंजीकृत नहीं है, तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए हमा आरटीए (अर्थात् लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि. नोबल हाइट्स, 1ला तल, प्लॉट नं एनएच 2, एलएससी सी ब्लॉक, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-

110058 के पास मुल निरस्त चालान के साथ अपने बैंक का विवरण भेजें। डीमैट धारिता किपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं। कुपया कम्पनी द्वारा यदि, घोषित होता है, अपनी खाता में लाभांश भुगतान के लिये

अपने डीपी के पास अपने बैंक के विवरणों को भी अद्यतन कराएं।

सदस्यगण ध्यान रखें कि यदि आपका ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट के पास पंजीकृत है तो रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेन्शियल्स पोस्टल बैलॅट सचना के साथ पंजीकृत ई–मेल परे पर भेजा जायेगा। लेकिन, जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे उपरोक्त रूप में ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें।

उपरोक्त सचना कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी तथा लाभ के लिए तथा एमसीए सक्यलर्स तथ सेबी सर्क्यूलर के अनुपालन में जारी की जा रही है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.consofinvest.com एवं स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड के लिये

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 3 फरवरी, 2021

अनिल कौशत (कम्पनी सचिव



न्यायाधिकरण के आदेशानसार

हस्ता /- सहायक रजिस्टार,

डीआरटी-।।।, नई दिल्ली

इन्फ्राटक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी प्लांजा, टावर II, 4था तल, पुष्प विहार, सेक्टर-5, नई दिल्ली-110017 CIN: L45201DL1999PLC195937, ईमेलः complianceofficer@pncinfratech.com, वेबसाईटः www.pncinfratech.com

स्टैण्डएलॉन

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के वित्तीय परिणामों का सार

(ईपीएस को छोड़कर रु. लाखी मे)

समेकित

क्रान सं.	IGGE	समाप्त ।तमाहा (31.12.2020) अनंकेक्षित	समाप्त तिमाहा (31.12.2019) अनंकेक्षित	समाप्त ना माहा (31.12.2020) अनंकेक्षित	समाप्त ातमाहा (31.12.2020) अनंकेक्षित	समाप्त ातमाहा (31.12.2019) अनंकेक्षित	
1.	प्रचालनों से कुल आय	134668.08	123235.53	333931.77	161692.69	140966.27	401106.69
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पूर्व)	15936.99	11278.85	35383.75	23686.87	9825.08	48677.14
	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	15936.99	11278.85	35383.75	23686.87	9825.08	48677.14
	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	10317.25	7713.94	23256.09	17614.34	6690.43	34654.61
5.	अविध के लिये कुल व्यापक आय (अविध के लिये लाभ/(हानि) (कर से बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद) से शामिल	10367.87	7690.25	23407.96	17678.78	6666.62	44848.26
	इक्विटी शेयर पूंजी	5130.78	5130.78	5130.78	5130.78	5130.78	5130.78
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अनंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	_
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. मूल					77	W 31
	2. तरल	4.02	3.01	9.07	6.87	2.61	13.51

टिप्पणी:

स्थानः आगरा

तिथि: 03 फरवरी, 2021

1) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही/ नौ माही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/नौ माही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.pncinfratech.com) पर उपलब्ध है।

2) उपरोक्त स्टैण्डएलॉन/ समेकित परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 03 फरवरी, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। पीएनसी इन्फ्राटेक लि. के लिए

> चक्रेश कुमार जैन प्रबंध निदेशक

(DIN: 00086768)

के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा

www.flexfoodsltd.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 24th ay of Dec., 2020. By Order of this Tribunal
Assistant Registrar, DRT-III, New Delhi

NOTICE Notice is hereby given in terms of Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be

held on Thursday, February 11, 2021 at 4:00 P.M. at UB, Express Trade Towers 3, Plot no. 79, Sector 34, Gurugram, Haryana – 122 001 interalia, to consider and take on record the

For ETT Limited Puniti Sharma Compliance Officer

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की

के अन्य मदों पर विचार की जाएगी।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.maanaluminium.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

UNO MINDA

प्राधिकृत अधिकारी: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अंतरिम लाभांश के लिये अभिलिखित तिथि की सचना

कम्पनी सचिव

शिक्तयों का प्रयोग करते हए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक/गारन्टरों को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकष्ट

कब्जा की 2.2.2021

www.readwhere.com

तिथि: 5.2.2021 स्थान: फरीदाबाद